

वित्तीय वर्ष है :

(1) 1 अप्रैल से 30 मार्च

(2) 1 अप्रैल से 31 मार्च

(3) 1 अप्रैल से 28 फरवरी

(4) 1 अप्रैल से 1 अप्रैल

(ii) Finance Commission in India is

constituted under the Article :

(1) 280

(2) 285

(3) 282

(4) 288

No. of Printed Pages : 15

Roll No.

32519

B.A. & Hons. (Subsidiary)

EXAMINATION, 2025

(Sixth Semester)

(Regular & Re-appear)

ECONOMICS

Opt. (ii)

Public Finance

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 80

Before answering the question-paper, candidates must ensure that they have been supplied with correct and complete question-paper. No complaint, in this regard will be entertained after the examination.

Note : Attempt *Five* questions in all. Q. Nos. 1 and 2 are compulsory. Attempt remaining

three questions selecting *one* question each from any of the three Units out of the four Units. All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य हैं । तीन प्रश्नों का चयन चार में से किन्हीं तीन इकाइयों से प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. Explain the following short answer type questions :

- (i) Development expenditure vs. Non-development expenditure
- (ii) Canons of taxation
- (iii) Objectives of fiscal policy
- (iv) Zero base budgeting.

निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कीजिए :

- (i) विकास व्यय बनाम गैर-विकास व्यय
- (ii) करारोपण के सिद्धान्त
- (iii) राजकोषीय नीति के उद्देश्य
- (iv) शून्य आधार बजटिंग ।

2. (a) Attempt the following multiple choice questions : 5

निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) Fiscal year is from :
 - (1) 1st April to 30th Marh
 - (2) 1st April to 31st March
 - (3) 1st April to 28th February
 - (4) 1st April to 1st April

सार्वजनिक वस्तुओं की कौनसी विशेषता है ?

- (1) गैर-प्रतिद्विदिता
- (2) गैर-बहिष्कृत
- (3) सीमांत लागत शून्य के करीब
- (4) उपर्युक्त सभी

(b) Attempt the following matching type questions : 5

List-I

List-II

- | | |
|--|----------------|
| (i) Socio-political approach of taxation | (a) Adam Smith |
|--|----------------|

भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद.....के तहत किया जाता है ।

- (1) 280
- (2) 285
- (3) 282
- (4) 288

(iii) VAT introduced in India in :

- (1) 1978
- (2) 1972
- (3) 1977
- (4) 1970

भारत में वेट लागू हुआ :

- (1) 1978 में
- (2) 1972 में
- (3) 1977 में
- (4) 1970 में

(iv) Which one is not given by the
Findlay Siraz ?

- (1) Canon of surplus
- (2) Canon of sanction
- (3) Canon of benefit
- (4) Canon of certainty

फिण्डले सिराज ने कौनसा नहीं दिया है ?

- (1) अधिशेष का सिद्धांत
- (2) मंजूरी का सिद्धांत
- (3) लाभ का सिद्धांत
- (4) निश्चितता का सिद्धांत

(v) Which one is the feature of public
goods ?

- (1) Non-rivalry
- (2) Non-excludable
- (3) Marginal cost near to zero
- (4) All of the above

4. Critically examine the theory of maximum social advantage.

अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Unit II

इकाई II

5. Critically examine the law of increasing state activities.

राज्य की बढ़ती गतिविधियों के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

- | | |
|---|-------------------|
| (ii) Canons of taxation | (b) Adolph Wagner |
| (iii) Benefit received theory of taxation | (c) Erick Lindhal |
| (iv) Wealth tax | (d) 1951 |
| (v) Finance commission | (e) 1957 |

निम्नलिखित मिलान सम्बन्धी प्रश्नों को हल कीजिए :

सूची-I

सूची-II

- | | |
|--|---------------|
| (i) कराधान का सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण | (a) एडम स्मिथ |
|--|---------------|

(ii) कराधान के सिद्धांत (b) एडोल्फ वैगनर

(iii) कराधान का लाभ (c) एरिक लिण्डहाल

प्राप्त सिद्धांत

(iv) संपत्ति कर (d) 1951

(v) वित्त आयोग (e) 1957

(c) Explain the following very short answer

type questions : 6

(i) Deficit financing

(ii) Merit goods

(iii) Proportional tax

निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या

कीजिए :

(i) घाटे का वित्तपोषण

(ii) गुणात्मक वस्तुएँ

(iii) आनुपातिक कर ।

Unit I

इकाई I

3. What is public finance ? Discuss the scope of public finance.

सार्वजनिक वित्त क्या है ? सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र पर चर्चा कीजिए ।

6. Critically examine the Peacock-Wiseman hypothesis of public expenditure.

सार्वजनिक व्यय की पीकॉक-वाइसमैन परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Unit III

इकाई III

7. Explain the benefit received theory of taxation in detail.

कराधान के प्राप्त लाभ सिद्धांत को विस्तार से समझाइये ।

8. Discuss the ‘ability to pay’ theory of taxation in detail.

कराधान के ‘भुगतान करने की क्षमता सिद्धांत’ पर विस्तार से चर्चा कीजिए ।

Unit IV

इकाई IV

9. Define budget. Discuss the classification of public budget in detail.

बजट को परिभाषित कीजिए । सार्वजनिक बजट के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा कीजिए ।

10. “Deficit financing is a good servant but a bad master.” Comment.

“घाटे की वित्त व्यवस्था एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक है ।” टिप्पणी कीजिए ।

